


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 334]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 1967/आषाढ़ 5, 1889

No. 334]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 1967/ASADHA 5, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June 1967

S.O. 2139.—The following Order made by the President on June 23, 1967, is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes, with immediate effect, the following amendments in the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

In the said Rules, in the Second Schedule, under the heading "Ministry of Health and Family Planning",

(a) under sub-heading "A. Department of Health", entry 15 shall be omitted; and

(b) under sub-heading "B. Department of Family Planning", after entry 1, the following entry shall be inserted, namely:—

"1A. Maternity and Child Welfare."

ZAKIR HUSAIN,

President.
23-6-1967.

[No. 74/7/CF-67.]

RAJESHWAR PRASAD, Jt. Secy.

(1185)

